

Leadership

Q - 8 Leadership, Classical approaches to leadership behaviour, Behavioural approach to leadership; Theory X & Theory Y Contingency theory of leadership.

Ans. Fiedler का प्रांसिङ्क सिद्धांत (Fiedler's Contingency theory) :-

Fiedler (1964, 1971) ने नेतृत्व के प्रांसिङ्क सिद्धांत का प्रतिपादित किया। उनके सामने मुख्य समस्या थह थी कि नेतृत्व की प्रणालीलगा, नेतृत्व के प्रकार पर निर्भर करती है या परिस्थिति इन्होंने अपने शोधकार्य के आधारपर निष्कर्ष निकाला कि नेतृत्व की प्रणालीलगा को निर्धारित करने में नेतृत्व-प्रकार तथा समूह-परिस्थिति दोनों का हाथ छोड़ता है। एक प्रकार का नेता समूह-मनोबल को उन्नत बनाने में अधिक सफल हो सकता है और दूसरे प्रकार का नेता समूह-उत्पादकता को बढ़ाने में अधिक प्रणालीय हो सकता है। इतः नेतृत्व की प्रणालीलगा की समुचित व्याख्या तथा गविष्यापात्री (Prediction) के लिए नेतृत्व-प्रकार तथा परिस्थिति-विशेषताओं दोनों का ध्यान रखना आवश्यक है।

I परिस्थिति-विशेषताएँ (Characteristics of the Situation):

Fiedler के अनुसार, कौन प्रणालीय

जेता होगा, यह इस बात पर आधारित है कि समूह-परिस्थिति किस तरह तक उसके अधिकार या प्रभुत्व (dominance) स्वीकृति के पक्ष में है। इसमें 3 कारण प्रमुख हैं जिनसे नेता के लिए परिस्थिति की अनुकूलता निर्धारित होती है।

- (i) नेता-समूह संबंध (Leader group relations)
- (ii) कार्य-संरचना (Task Structure)
- (iii) नेतृत्व में द्वारा निहित शक्ति (Power inherent in leadership position)

इस प्रकार स्पष्ट है कि Fiedler के अनुसार सफल तथा प्रगतिशील नेतृत्व के लिए अधिकतर अनुकूल परिस्थितियों में हैं जहाँ नेता तथा समूह के बीच बहु अधिक सम्बन्ध हो, समूह का कार्य स्पष्ट तथा पूर्ण परिभाषित है, तथा नेता को पर्याप्त स्वीकृति अधिकार दी जाती प्राप्त हो।

नेतृत्व के प्रकार (Leadership Styles) :-

Fiedler के अनुसार सफल नेतृत्व के लिए समूह-परिस्थिति के साथ-साथ नेतृत्व के प्रकार परिचय करना भी आवश्यक है। Fiedler (1971) ने कई अध्ययनों (Bales, 1953, Bales & Slater 1955) से प्राप्त परिणामों के आधार पर नेतृत्व को 2 प्रकार में विभाजित किया गया:-

- (i) कार्य-उन्मुख नेतृत्व (Task Oriented leadership)
- (ii) समूह-उन्मुख नेतृत्व (Group Oriented leadership)

कार्य-उन्मुख तथा समूह-उन्मुख नेतृत्व के आलोक में Fiedler ने नेतृत्व को मापने के लिए स्क्रिप्चरीय मापनी का निर्माण किया। इस मापनी की सबसे कम पसंद किया जानेवाला संक्षरण LPC (Least preferred co-worker) मापनी कहते हैं।

Fiedler के अनुसार कार्य-उन्मुख नेता (Low-LPC) सबसे अधिक सफल हैं प्रगतिशील तथा परिस्थितियों में होता है तो आते अधिक अनुकूल या प्रतिकूल होती है। इसके विपरीत समूह-उन्मुख नेता (High-LPC) मध्यम अनुकूल परिस्थितियों में अधिक सफल तथा प्रगतिशील रीढ़ ठोकता है। ऐसा नेता प्रतिकूल परिस्थितियों में विफल-धमाकित होता है।

(3)

Merits :-

- ① यह सिद्धांत कई प्रयोगात्मक प्रगतियों पर आधारित है। Fiedler ने इनमें अनेक परिस्थितियों में प्रयोग करके इस सिद्धांत की सार्वत्रिकता को प्रमाणित किया।
- ② इस सिद्धांत में प्रमाणीकरण (verification) का गुण प्राप्त होता है। कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के साथार परिष्कृत सिद्धांत का समर्थन किया है। (Chemers & Skrzypek (1972) & Harzdy (1976))।
- ③ Schein (1980, 1983) के अनुसार इस सिद्धांत का स्वरूप यह है कि, यह सिद्धांत नेतृत्व के 3 भ्यावहारिक संघटकों (components) आर्थिक नेता, अनुगामी और कार्य पर प्रबुद्ध-प्रबुद्ध देता है। इन तीनों संघटकों के विवरण से ज्ञात होता है कि लालिका के नेतृत्व प्रकार में परिवर्तन लाना कठिन है। अतः नेतृत्व की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने अनुकूल परिस्थिति की खोज करे या परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाले।

Limitations :-

कई युगों के बाकर्दू के Friedler के सिद्धांत में कई नुस्खियाँ नहीं हैं:—

- ① Mitchell आदि के अनुसार यह सिद्धांत कार्ग-उन्मुख व्यक्ति (Low-LPC) तथा समूह-उन्मुख व्यक्ति (High-LPC) के विविध व्यवहारों को निर्धारित करने में पूरी तरह सफल नहीं है। Fiedler के अनुसार low LPC का व्यक्ति कार्ग-उन्मुख होता है लेकिन कुछ अध्ययनों में High LPC की अपेक्षा low LPC के लिए कार्ग सामाजिक संवेदनशीलता अधिक पर्याप्त है: क्यों? इसकी व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर पाता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नेतृत्व-समस्या के समाधान में यह सिद्धांत द्वारा उपर्युक्त व्यवहार सफल नहीं है। इस संबंध में Worcher & Cooper (1979) का विचार अधिक सही प्रतीत होता है। उनके अनुसार व्यापक प्रारंभिक सिद्धांत को नेतृत्व-प्रणालीयसमाज का समूचित सिद्धांत स्वीकार करने में सकेत है, फिर भी इनना सत्त्व है कि यह सिद्धांत सही दिशा में झगड़ा है।